

चुटकुलै

1) टीचर :- वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो
'वसंत ने मुझे मारा',

संजु :- वसन्तपंचमी

2) टीचर :- सख्य और क्रम में क्या फर्क है ?

मैं :- सर, आप पढ़ा रहे हैं और सख्य है और
क्रम पढ़ रहे हैं और आपका क्रम है,

3) मास्टर जी :- काँपी हुआ ली, पीछे वाला देख रहा है,

पप्पु :- देखने की सर, मैं अकेला खेल नहीं दीना
चाहता !!!

4) टीचर :- बताओ सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है ?

छात्रा :- किताबों में

टीचर :- वो कैसे ?

छात्रा :- खोलते ही नींद आ जाती है,

5) टीचर :- बताओ दुनिया का सबसे पुराना
जीव कौन - सा है ?

पप्पु :- सर, जीबरा,

टीचर :- वो कैसे ...

पप्पु :- वो हलैंक रॉड खाइते हैं ना.



૭) લીચર :- અગર તુમ રુક જાગલ મેં દો આંઁ

સામને શૈર આ જારુ તી વચા વચીગી ?

સ્ટુડેન્ટ :- મૈમ, મૈં પૈડ પર ચઢ જાઉંગા.

લીચર :- અગર પૈડ ન દો તી,

સ્ટુડેન્ટ :- મૈમ, ફિર શૈર દી કુદ્દં કારેગા,
મેં વચા વચું!

૬) મૈડમ :- વલાસ મેં જી લેવપુફ દી વી સ્વડા દી જારુ,
પણ મલુમિયત સૈ સ્વડા દી ગચા,

મૈડમ :- વચા તુમ લેવપુફ દી ?

પણુ :- નદી મૈડમ આપ અકેલી સ્વડી થી
ડસલિય મુડી અચ્છા નદી ભગા....

૪) ડૉક્ટર :- વાદિય કૈસે આના દુઆ,

શાખુ :- ડૉક્ટર સાદલ લિવલ મેં 'લુટ વર્ડ'
દો રદા દે.

ડૉક્ટર :- શરાબ પીતે દો,

શાખુ :- દો - દોં બિલકુલ પંર દીલ વૈક
દી બનાના.

— રક્ષા સાહા
— વૈચી હમાદી

प्रश्नोत्तरी

① 'हर हर जल' योजना किस मिशन से संबंधित है ?

उत्तर: जल जीवन मिशन

② "विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय कहां है ?

उत्तर:- जिनेवा

③ अरुम का प्रसिद्ध रेवम "मूगा सिमक" किस स्थान से जुड़ा है ?

उत्तर:- मुआलकुची

④ अरुम का कौन सा अभयारण्य "गोल्डन लंगूर" के प्रसिद्ध है ?

उत्तर:- चक्रशिला

⑤ "सुखी" किस प्रकार का तारा है ?

उत्तर:- पीला बौना

⑥ अरुम में "ब्रह्मपुत्र" नदी किस दिशा में बहती है ?

उत्तर:- पूर्व से पश्चिम

⑦ "गंगा नदी" का उद्गम स्थल कहां है ?

उत्तर:- गौमुख

⑧ "पेरिस" किस देश की राजधानी है ?

उत्तर:- फ्रांस

⑨ "संयुक्त राष्ट्र" की स्थापना कब हुई थी ?

उत्तर:- 1945

— जितेन सिंह

— चौथी कक्षा

मनोवैज्ञानिक तथ्य

- 1) ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ता है,
- 2) मुस्कुराने से मन बेहतर होता है,
- 3) लिखने से तनाव कम होता है,
- 4) अकेलापन सड़त पर बुरा असर डालता है,
- 5) दूसरों से तुलना करने से खुशी कम होती है,
- 6) संगत का असर व्यक्तित्व पर पड़ता है,
- 7) लीग वही सुनते है जो वे सुनना चाहते है,
- 8) डर अक्सर कल्पना से बड़ा होता है,
- 9) नींद की कमी से सोचने की क्षमता घटती है,
- 10) दिमाग नकारात्मक चीजों को ज्यादा याद रखता है.

— आकिया बैंगम
द्वितीय छात्रा

शुभ - विचार

“ देव की सेवा ही सबसे बड़ा
धर्म है। ”

— सुभाष चंद्र बोस

“ इमानदार ही सबसे बड़ी धांजी है, ”

— र. वी. जै. अब्दुल कलाम

“ साहस ही मनुष्य की महान बनाता
है, ”

— रानी लक्ष्मीबाई



“श्रुत को जलाना अनिष्ट है
दुनिया में आप देखना चाहते हैं”
— महात्मा गाँधी


“किसी भी व्यक्ति को उसके अवतारों
से पहचानें; न कि उसके उत्तरोत्तरों से।
— वाल्टेयर

“जीनिव्स 4% टैलेंट है...
और 99% हाई वर्क.”
— अल्बर्ट आइंस्टीन

— श्रेया जायसवाल
छठी कक्षा



ਬਾਂਲਾ ਬਿਡਾਸ




আনন্দে বাঁচতে হলে মুক্ত হতে শেখো

জীবনের প্রতিটি দিন আমাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ। প্রতিদিন আমরা নতুন করে নড়ে তুলতে পারি, নতবশলের দুঃখ-বাক্ত ভুলে এগিয়ে যেতে পারি। জীবন আমাদের কাজ, ভালোবাসা এবং আনন্দ করার সুযোগ দেয়। তাই প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা অনেক সময় জীবনের ছোট ছোট সুখগুলো উপেক্ষা করি। কিন্তু এই ছোট ছোট আনন্দই আমাদের জীবনে বড় সুখ এনে দেয়। একটি হাসি, একটি ভালো কাজ - এসবই কখনো জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। তাই আমাদের উচিত ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া।

জীবনে কৃষ্ণ না নিলে সাফল্য অর্জন করা যায় না। প্রতিটি কাজেই কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে, কিন্তু সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখলে এবং পরিশ্রম করলে আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। অতীত নিয়ে বেশি আমরা বর্তমানকে হারিয়ে ফেলি। তাই অতীতের ভুল গুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যকে ক্ষমা করা এবং নিজের

ভুলগুলো মেনে নেওয়াও খুব জরুরি। সবশেষে বলা যায়, জীবনে সুখী হতে হলে আমাদের



মনকে হবে এবং সবসময় ইতিবাচকভাবে
এগিয়ে যেতে হবে।

- সুনাই কলর
চতুর্থ বার্ষিক